



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 540]
No. 540]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 1978/अग्रहायण 17, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 1978/AGRAHAYANA 17, 1900

इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1978

का०प्रा० 707(अ).—आंध्र प्रदेश राज्य के 31-सिकन्दराबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री एम० एम० हाशिम द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 11 जनवरी, 1979 (बृहस्पतिवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/आ०प्र०-लौ०स०/1/78(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th December, 1978

S.O. 707(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri

903 GI/78

M. M. Hashim, a member elected to that House from 31-Secunderabad parliamentary constituency in the State of Andhra Pradesh ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (44 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 11 January, 1979 (Thursday) in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/AP-HP/1/78(1)]

का०प्रा० 708(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/आ०प्र०-लौ०स०/1/78(1), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 के अनुसरण में आंध्र प्रदेश राज्य के 31-सिकन्दराबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 15 दिसम्बर, 1978 (शुक्रवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए तारीख 16 दिसम्बर, 1978 (शनिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 18 दिसम्बर, 1978 (सोमवार)
- (घ) वह तारीख जिसके, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 7 जनवरी, 1979 (रविवार)

(इ) वह तारीख जिसके, पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 11 जनवरी, 1979 (बृहस्पतिवार)

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/आ०प्र०-सो०स०/1/78(2)]

S.O. 708(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the by-election to be held in 31-Secunderabad parliamentary constituency in the State of Andhra Pradesh in pursuance of its notification No. 100/AP-HP/1/78(1), dated 8 December, 1978—

- (a) 15 December, 1978 (Friday), as the last date for making nominations ;
- (b) 16 December, 1978 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 18 December, 1978 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) 7 January, 1979 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) 11 January, 1979 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/AP-HP/1/78(2)]

का०प्र० 709(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/आ०प्र०-सो०स०/1/78(1), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 के अनुसरण में 31-सिकन्दराबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/आ०प्र०-सो०स०/1/78(3)]

आदेश से,

टी० नागरत्नम, सचिव

S.O. 709(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes 8.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the by-election to the House of the People from 31-Secunderabad parliamentary constituency to be held in pursuance of its Notification No. 100/AP-HP/1/78(1), dated 8 December, 1978.

[No. 100/AP-HP/1/78 (3)]

By Order,

T. NAGARATHNAM, Secy.